

प्रेस नोट थाना झंगहा दिनांक 15-11-2021

लूट के रुपये व अवैध असलहे के साथ शातिर लुटेरा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित /लुटेरे/शातिर अपराधी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरा-चौरा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक झंगहा के नेतृत्व में एक सशक्त टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा आज दिनांक 15.11.2021 को मु0अ0स0 347/21धारा 392/504/506 भादवि से संबन्धित वांछित अभियुक्त बैजनाथ पुत्र राजमोहन यादव निवासी खोरमा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को प्रातः 4.10 बजे बोहाबार तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर तथा 9100 रुपया नगद बरामद हुआ। अभियुक्त ने पुछताछ पर बताया कि मैंने डेढ माह पुर्व गैस डिलवरी की गाडी से थाना झंगहा के हरैया क्षेत्र से 20000 रुपया अपने साथियो के साथ मिलकर लुटा था जिसमे मेरे हिस्से मे 6500 रुपये मिला था जिसमे का 3500 रुपया बचा हुआ है वह है तथा 35000 रुपया मैंने अपने साथियो के साथ एक माह पुर्व थाना गगहा क्षेत्र के सोहगौरा से लुटा था जिसमे मेरे हिस्से मे 11500 रुपये मिला था जिसमे का 5600 रुपया जो मेरे हिस्से का है बचा हुआ है वह है शेष रुपये मैंने शानो शौकत मे खत्म कर दिया है। उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 403/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

बैजनाथ पुत्र राजमोहन यादव निवासी खोरमा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 347/21धारा 392/504/506/411 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2.मु0अ0सं0 362/2021 धारा 392/504/506/411 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 3.मु0अ0सं0 403/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- 1.एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतुस 315 बोर
- 2.एक अदद अपाची मोटरसाइकिल सफेद रंग बिना नंबर की
3. 3500 रुपया संबन्धित मु0अ0स0 347/21धारा 392/504/506/411 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. 5600 रुपया संबन्धित मु0अ0सं0 362/2021 धारा 392/504/506/411 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

- 1.प्रभारी निरीक्षक झंगहा संतोष कुमार अवस्थी
2. उ0नि0 अभय कुमार पाण्डेय
3. का0 सुनील कुमार गौतम
4. का0 सलमान
5. उ0नि0 धीरेन्द्र राय प्रभारी एसओजी टीम
6. उ0नि0 अरुण सिंह
- 7.हे0का0 राशिद अख्तर
8. हे0का0 जितेद्र सिंह
9. का0 इन्द्रेश वर्मा
- 10.का0 अरुण वर्मा